



PILIBHIT

POLICE



प्रेस नोट

“पैसे मिले वापस तो लौटी मुस्कान”

बैंक खाते से हुए ऑनलाइन फ्रॉड में गयी धनराशि (कुल 45000/- ₹0) को साइबर क्राइम सेल पीलीभीत ने कराया वापस

जनपद पीलीभीत में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद पीलीभीत, श्री अतुल शर्मा द्वारा जनमानस को समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है साथ ही साइबर क्राइम सेल पीलीभीत को आवश्यक/त्वरित वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 07.12.2022 को आवेदक श्री अमर अग्रवाल पुत्र श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल निवासी मो0 आसफजान थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदक के फोन पर अज्ञात मो0नं0 से आयी कॉल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए मैसेज(क्यू0आर0 कोड) के माध्यम से आवेदक को झांसा देकर आवेदक के बैंक खाते से **कुल 45000/- ₹0** धोखाधड़ी कर ठग लिये गये हैं।

उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा साइबर क्राइम सेल पीलीभीत को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। साइबर क्राइम सेल पीलीभीत द्वारा आवेदक के दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से पत्राचार कर **सम्पूर्ण धनराशि 45000/- ₹0 वापस करायी गयी।** शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि वापस आने पर साइबर क्राइम सेल पीलीभीत को आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।



साइबर क्राइम सेल टीम पीलीभीत :-

1. निरीक्षक श्री अजय कुमार यादव
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर अंकुर कुमार
3. मुख्य आरक्षी अनुज कुमार
4. आरक्षी अंकित कुमार



साइबर अपराधों से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश :-

- ✓ साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल हेल्पलाइन न० **1930** पर दें।
- ✓ साइबर अपराध, एनसीआरपी पोर्टल की बेबसाइट – www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।
- ✓ खाते में KYC अपडेट कराने के लिये बैंको द्वारा कभी भी किसी से व्यक्तिगत जानकारी/OTP/CVV/पिन नम्बर आदि नही माँगे जाते हैं।
- ✓ किसी भी बेबसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले अच्छी तरह जाँच करे लें।
- ✓ अज्ञात व्यक्ति / अज्ञात मोबाइल नम्बर द्वारा भेजी गयी लिंक को/पर क्लिक न करें।
- ✓ किसी से पैसा प्राप्त करते समय अपनी यूपीआई आईडी/पासवर्ड न डालें, पैसा प्राप्त करते समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।

